

No. 43/2018- Central Tax, dated the 10th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 854(E), dated the 10th September, 2018, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, in the second proviso, for the words, figures and letters “July, 2017 to September, 2018” and “31st day of December, 2018”, the words, figures and letters “July, 2017 to December, 2018” and “31st day of March, 2019” shall respectively be substituted.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

DR. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note : The principal notification No. 43/2018-Central Tax, dated the 10th September, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 854(E), dated the 10th September, 2018 and was last amended by notification No. 64/2018-Central Tax, dated the 29th November, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1148(E), dated the 29th November, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 72/2018- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1249(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.855(अ), तारीख 10 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 44/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 10 सितंबर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के पहले परंतुक में “जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018” और “31 दिसंबर, 2018” शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः “जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019” और “31 मार्च, 2019” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 44/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 10 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 855(अ), तारीख 10 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.1147(अ), तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 63/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 72/2018- Central Tax

G.S.R. 1249(E).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 44/2018- Central Tax, dated the 10th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 855(E), dated the 10th September, 2018, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, for the words, figures and letters “July, 2017 to November, 2018” and “31st day of December, 2018”, the words, figures and letters “July, 2017 to February, 2019” and “31st day of March, 2019” shall be respectively substituted.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

DR. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note : The principal notification No. 44/2018-Central Tax, dated the 10th September, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 855(E), dated the 10th September, 2018 and was last amended by notification No. 63/2018-Central Tax, dated the 29th November, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1147(E), dated the 29th November, 2018.